SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 CIN: L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org

Telephone No: 01970-256414

Date: 14.08.2021

To,
The Executive Director
BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 526211

Subject: <u>Intimation of the publication of Un-audited Financial Results for the quarter</u> ended June 30, 2021

Dear Sir.

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the newspaper clipping regarding publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021, published in the following newspaper:

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

Bhanumathy Ramachandran (Company Secretary)

Encl: As Above

FINANCIAL EXPRESS

(0.06) *

(0.06) *

(0.61)

(0.61)

FOSTER ENGINEERING INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51103DL1980PLC299384

Regd. Office: Flat No. 702, 7th Floor, Kanchanjunga, 18 Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Phone: 011-2331 0001 (5 LINES) * Email : hcsIndl@yahoo.co.in

Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021

Sr.		C	Quarter Ended					
Sr. No.	Particulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021			
NO.	0=0000=000000	(Un-audited)	(Audited)	(Un-audited)	(Audited)			
1	Total Income from Operation	0.22	0.46	0.29	1.36			
2	Net Profit /(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	(0.80)	(0.88)	(0.30)	(2.74)			
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(0.80)	(0.88)	(0.30)	(2.74)			
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax and Exceptional items	(0.89)	(1.02)	(0.52)	(3.30)			
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)		90.58	(0.52)	89.09			
6	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00			
7	Other Equity				3,395.49			
8	Earning per share of Rs.10 each							
	(a) Basic (Rs.)	(0.45)	10 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	(0.26)	(1.65)			
	(b) Diluted (Rs.)	(0.45)	(0.51)	(0.26)	(1.65)			

- The above is an extract of the detailed format of the un-audited Financial Results for the guarter ended June 30, 2021 filed with the Calcutta Stock Exchange Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The above un-audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2021. The report of the Statutory Auditors is being filed with the Calcutta Stock Exchange Limited. For and on behalf of the Board

Arvind Singh Managing Director DIN 05254251

Date: 13th August, 2021

Place: New Delhi

SURAJ INDUSTRIES LTD. CIN: L26943HP1992PLC016791

Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, Himachal Pradesh-173212 Corporate Office: F-32/3, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email ID: secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org, Telephone No- 01970-256414

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021 (Rs. In Lacs)

S. No	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 (Un-Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Un-audited)
1	Total income from operations (net)	305.63	704.33	13.48
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.25	37.12	(5.49)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.25	37.12	(5.49)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.25	37.12	(5.49)
5	Total Comprehensive Income for the period	3.25	37.12	(5.49)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	865.00	865.00	728.6
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the balance sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00
8	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) for Continuing and Discontinuing operations (*not annualized) a.Basic b.Diluted (*) Not Annualized	0.04 0.04	0.51* 0.51*	(0.08)* (0.08)*

- 1. The above results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 12.08.2021 and later on approved by the Board of Directors in their meeting held on 12.08.2021
- These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder under.
- During the current guarter the Company has acquired the bottling unit situated at the premises of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd (RSGSM) at Purani Chungi, Ramganj, Taragarh Road, Teh.-Ajmer, Distt-Ajmer Rajasthan-305001 vide agreement dated June 17, 2021 from M/s Premier Alcobev Private Limited for bottling and packaging of alcoholic beverages for RSGSM in terms of the agreement executed with RSGSM. Therefore, from this quarter the company has two business segments- a) Liquor Operations (b) Trading Operations. The Segment reporting is being accordingly made.
- Previous years figures have been regrouped/ re-arranged to make them comparable to current period.

By order of the Board For Suraj Industries Ltd Suraj Prakash Gupta Managing Director

Place: New Delhi Date: August 13, 2021

JK AGRI GENETICS LTD.

Regd. Office: 7, Council House Street, Kolkata -700 001 Secretarial Office: Gulab Bhawan, 3rd Floor (Rear Block), 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002 Phone: +91-011-68201265/891, Email id: jkaglshareholder@jkmail.com, Website: www.jkagri.com

NOTICE OF THE 21^{5T} ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

The 21st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JK Agri Genetics Limited will be held on Tuesday, the 7th September 2021 at 3.00 P.M. Indian Standard Time (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act), the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all the applicable Circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC/OAVM is well explained in the notes to the Notice of AGM. Members participating at the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid circulars, the Annual Report for the Financial Year 2020-21 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM have been sent to the Members of the Company and other persons so entitled, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent, i.e., Alankit Assignments Limited, New Delhi (RTA) or Depository Participants (DP) on 30th July 2021. The aforesaid documents are also available and can be downloaded from the website of the Company at www.jkagri.com and website of Stock Exchange i.e. BSE Ltd.at www.bseindia.com and the website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) at www.evotingindia.com.

Book Closure: The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday 1st September 2021 to Tuesday 7th September 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend for FY 2020-21, if declared at the AGM.

E-voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized

form as on Tuesday, 31st August 2021 (Cut-off Date), the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the resolutions proposed to be passed at the AGM, through e-voting services provided by CDSL:

- (A) Remote e-voting: The remote e-voting period commences on Saturday, 4th September 2021 (10.00 A.M.) and ends on Monday, 6th September 2021 (5.00 P.M.) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time
- (B) E-voting at the AGM: The facility for e-voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote e-voting and are attending the AGM through VC/OVAM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The manner of remote e-voting and e-voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their E-mail addresses and information, instructions and procedures relating to Login ID and Password for e-voting, are provided in the Notice of AGM.

The Members who have already cast their vote by remote e-voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC/OVAM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through

Manner of registration/updation of E-mail addresses and Bank Account details for receiving Annual Report and Dividend electronically:

- (A) Shares held in Physical Mode: Please send a request letter through email to the Company at jkaglshareholder@jkmail.com or RTA at rta@alankit.com mentioning the First / Sole Shareholder's name, Registered Folio Number, E-mail Address, self-attested copy of PAN card, self-attested copy of address proof (Aadhar card/ voter ID card/ passport/ utility bill), contact number and Bank Account Particulars: (i) Bank Name and Branch Address; (ii) Bank Account Number; (iii) IFSC Code; (iv) MICR; (v) Cancelled cheque leaf.
- (B) Shares held in Demat Mode: Please contact your DP with whom you maintain your Demat Account to register your Email address.

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Please write to the Company for any assistance.



Place: New Delhi

Sd/-Anoop Singh Gusain Company Secretary

for JK Agri Genetics Ltd.

LIC HOUSING FINANCE LTD.

BACK OFFICE: LAXMI INSURANCE BUILDING, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties) [(Appendix-IV) See Rule 8(I)]

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The LIC Housing Finance Ltd. issued demand notices on the date mentioned against accounts and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken the **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of LIC Housing Finance Ltd., for the amounts and interest thereon. Details of Property where possession had been taken is as follows:

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

SI.	Loan No., Name of the	Description of the Property/	Date of	Date of	Amount O/s.
No.	Borrowers & Guarantors	Mortgaged /Charged	Demand Notice	Possession	As Per 13(2) Notice
1.	Loan A/c. No. 310700002205 BORROWER: MRS. LAXMI GARG CO-BORROWER: MR. VIVEK AGARWAL	All that part and parcel of the property consisting of Flat No.104, on Upper Ground Floor, M.I.G. Type, Back Side, (With Roof Rights) Plot No.205, Gyan Khad-I, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. Total area measuring 50 Sq.Mtr. Bounded: On the North by: Plot No.206 On the South by: Plot No.204 On the East by: Road 60 Feet Wide On the West by: Plot No.234	11.03.2021	11.08.2021	Rs. 35,82,154.27 plus interest and other charges thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. DATE: 11.08.2021 Authorised Officer.

PLACE: GHAZIABAD, U.P.

BRAJ BINANI GROUP

LIC HOUSING FINANCE LTD.

PROZONE INTU PROPERTIES LIMITED

CIN: L45200MH2007PLC174147 Regd. Off: 105/106, Ground Floor, Dream Square, Dalia Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri West, Mumbai- 400 053 Website: www.prozoneintu.com Ph: +91-22-68239000

Extract of Statement of Consolidated unaudited Financial Results for the

quarter ended 30 June 2021 Year Ended Quarter Ended **Particulars** 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021 Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) 710.57 2,692.88 15.44 4,486.36 Total Income from Operations (net) (Loss) / Profit from ordinary activities before tax before share of profit of joint ventures 246.35 (1.820.65)(4.224.63)328.22 (1.767.71) Net (loss) / profit for the period / year (934.07)(4,171.69) Total comprehensive (loss) / profit for the period / year 679.30 (1,712.51 (4,149.97)(933.44)Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share) 3,052.06 3,052.06 3,052.06 3,052.06 Other Equity 45.013.22

(0.33) *

(0.33) *

* (Not annualised)

Date : 13 August 2021

Place : Mumbai

Standalone information

Earnings Per Share

a. Basic:

b. Diluted:

Quarter Ended Year Ended Particulars 30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 31.03.2021 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) Income from operations 134.64 749.63 281.41 245.09 Profit from ordinary activities before tax 115.45 119.01 129.97 313.16 37.46 Net Profit / (Net loss) for the period / year end 90.88 -96.38 94.06 Total comprehensive income 91.43 -11,052.69 -27,502.23 (loss) for the period / year end 365.11 0.06* Earnings per share (Rs.) (Basic / Diluted) (0.06) * 0.06* 0.02

The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly results is available on the Company's website at www.prozoneintu.com and the Stock Exchange websites a www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Consolidated

For and on Behalf of the Board

Nikhil Chaturvedi Managing Director DIN: 00004983

 $\{1.81\}$

(1.81)

(Rs. In Lakhs)

BINANI INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town Rajarhat Main Road, PO Hatiara, Kolkata - 700 157, India Corporate Office: Mercantile Chambers, 12 J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, India CIN No. L24117WB1962PLC025584

Extract of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021

	66	Stanual	Wille		0.6	Coma	ondated	215		
CONTROL COMPANION		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended				
Particulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021		
ACCUMULATION AND ACCUMU	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
Total Income from Operations	26	183	10	237	123	420	25,137	913		
Profit / (Loss) from ordinary activities (Before tax and Extraordinary and Exceptional Items)	(90)	67	(108)	(316)	(79)	(350)	(5,593)	(1,336)		
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (After tax and Extraordinary and Exceptional Items)	(90)	67	(108)	(317)	(79)	39,988	(8,836)	27,982		
Total Comprehensive Income / (Loss) for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(90)	67	(108)	(322)	(79)	39,983	(8,836)	27,978		
Paid- up Equity Share Capital (Face Value per share Rs.10 each)	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138		
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve/ Business Reorganization Reserve)	×	×	-	(94,811)	373	U#3	(*)	3*		
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)						020				
(a) Before Extraordinary items- Basic & Diluted	(0.29)	0.21	(0.34)	(1.01)	(0.25)	131.63	(27.65)	93.36		
(b) After Extraordinary items- Basic & Diluted	(0.29)	0.21	(0.34)	(1.01)	(0.25)	131.63	(27.65)	93.36		

Place: Mumbai

Date : August 13, 2021

- 1 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Company's website www.binaniindustries.com or at the websites of BSE (www.bseindia.com) or NSE. (www.nseindia.com) or CSE (www.cse-india.com)
- 2 The Statement of Standalone & Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on August 13, 2021.

By order of the Board For BINANI INDUSTRIES LIMITED Visalakshi Sridhar Managing Director, CFO and Company Secretary

Din-07325198

glenmark LIFE SCIENCES

Glenmark Life Sciences Limited

Registered Office: Plot No. 170-172, Chandramouli Industrial Estate, Mohol Bazarpeth, Solapur - 413 213, India. Corporate Office: 4th Floor, OIA House, 470, Cardinal Gracious Road, Andheri (E), Mumbai 400 099, India. Phone No: +91 22 68297979 CIN: U74900PN2011PLC139963; Website: www.glenmarklifesciences.com; Email: complianceofficer@glenmarklifesciences.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021

(₹ in Millions, unless otherwise stated)

			Quarter ended			Year Ended	
Sr.	Particulars		30 June' 21	31 March' 21	30 June' 20	31 March' 21	
No	Particulars		Unaudited	Audited (Refer Note 4)	Unaudited	Audited	
- 1	Income		172				
	Revenue from Operations		5,248.97	4,671.63	3,969.68	18,851.65	
	Other Income		39.86	3.41	17.30	8.11	
		Total Income	5,288.83	4,675.04	3,986.98	18,859.76	
Ш	Expenses						
	Cost of Materials Consumed		2,599.21	2,266.22	1,819.20	9,761.98	
	Changes in Inventories of Finished Goods and Work-in-Progress		(5.48)	(341.52)	(64.83)	(707.01	
	Employee Benefits Expense		369.42	374.90	315.20	1,491.31	
	Finance Costs		205.50	211.78	228.15	875.47	
	Depreciation and Amortisation Expense		89.19	84.26	82.59	333.94	
	Other Expenses		681.34	673.18	522.12	2,394.63	
		Total Expenses	3,939.18	3,268.82	2,902.43	14,150.32	
Ш	Profit Before Tax (I-II)		1,349.65	1,406.22	1,084.55	4,709.44	
IV	Tax Expenses			12			
	Current Tax		322.43	347.44	253.08	1,127.46	
	Deferred Tax		18.09	11.94	20.81	66.17	
		Total Tax Expenses	340.52	359.38	273.89	1,193.63	
V	Profit for the Period / Year (III-IV)		1,009.13	1,046.84	810.66	3,515.81	
VI	Other Comprehensive Income (OCI)						
	Items that will not be reclassified to profit or loss						
	(a) Re-measurement of the post-employment benefit obligation		(1.76)	2.53	(3.19)	(7.03)	
	(b) Income tax relating to the above		0.44	(0.64)	0.80	1.77	
	Total Other Comprehensive Income/(Loss)		(1.32)	1.89	(2.39)	(5.26)	
VII	Total Comprehensive Income for the Period/ Year (V+VI)		1,007.81	1,048.73	808.27	3,510.55	
VIII	Earnings per equity share (Face Value of ₹2/-) (Not Annualised for the quarter)				1		
	(a) Basic (in ₹)		9.36	9.71	7.52	32.61	
	(b) Diluted (in ₹)		9.36	9.71	7.52	32.61	
IX	Paid up Equity Share Capital, Equity Shares of ₹ 2/- each		215.61	19.60	19.60	19.60	
Χ	Other Equity excluding Revaluation Reserve	2				7,507.87	

Notes:

- 1. The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The above Financial Results were reviewed by Audit Committee at their meeting held on August 12, 2021 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results who have issued an unmodified conclusion on the said results.
- 3. The Company considered the uncertainty relating to the COVID-19 pandemic in assessing the recoverability of receivables, tangible / intangible assets and other financial and non-financial assets. For this purpose, the Company considered internal and external sources of information up to the date of approval of these financial statements. The Company has also used the principles of prudence in applying judgements, estimates and assumptions including sensitivity analysis and based on the current estimates, the Company expects to fully recover the carrying these assets. The Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.
- The figures for the quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of the financial year ended March31, 2021 and the unpublished audited figures for nine months period ended December 31, 2020 prepared for the purpose of Initial Public Offer ("IPO").
- 5. The company has identified only one segment i.e. Active Pharmaceutical Ingredient (API) as reporting segment based on the information reviewed by Chief Operating Decision Maker (CODM). 6. Subsequent to the quarter ended June 30, 2021, the company has completed the IPO of 21,022,222 equity shares comprising a fresh issue of 14,722,222 equity shares and offer for sale of 6,300,000 equity shares of face value of ₹ 2 each at premium of ₹ 718 per share aggregating to ₹ 15,136 million. Pursuant to the IPO, the equity shares of the Company are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited with effect from August 06, 2021.
- Gross Debt comprising of Outstanding Purchase Consideration payable to the Parent Company was ₹8,008.3 million as on July 09, 2021. The Company has repaid the whole of this remaining outstanding purchase consideration from the proceeds of the Fresh Issue pursuant to the IPO.

8. As at June 30, 2021, Pursuant to Employee Stock Option Plan 2021, 9,51,734 options were outstanding, which upon exercise are convertible into equivalent number of equity shares.

For Glenmark Life Sciences Limited

Yasir Rawjee Managing Director & CEO

Mumbai, August 13, 2021

New Delhi

इंटेलिसिटी बिजिनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) पंजीकृत कार्यालय : एम-167, विकासपुरी, निकट सिंडीकेट बैंक, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110018

लिसटी बिजिनस पाक प्राइवट लिमिटेड (सीआईआरपों के अधीन) के स्वामित्व को एक कार माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधि पीठ-II के आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा नियुक्त समाधान प्रोफेशनल द्वारा बिक्री के लिए है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं विनियमों के अनुसार ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net पर "जहाँ है जैसे है" तथा "जो भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी:

1	8				
ब्लॉक	कारों का विवरण	आरक्षित मुल्य	धरोहर राशि	संविदा वृद्धि	दस्तावेज जमा करने
3,1147	नगर नग विन्य	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	राशि	की अन्तिम तिथि
ब्लाक-1	पोर्श पैनामेरा -2014	36.00	3.60	₹. 25,000/-	23 अगस्त, 2021
	UP16AU3132 (島जल)				(06:00 बजे अप.)

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : बुधवार, 25 अगस्त, 2021 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित) निरीक्षण की तिथि एवं समय : 16 अगस्त, 2021 (सोमवार) से 23 अगस्त, 2021 (सोमवार) तक 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक

कृपया ध्यान दें : विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी निविदा दस्तावेज एवं ऑनलाइन नीलामी के अन्य विवरण वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से ई-मेल : intellicitycirp@gmail.com पर तथा/अथवा श्री अरुण कुमार, एडवोकेट, मोबाइल नं. 7678451154 पर सम्पर्क करें।

> सर्वेश कश्यप समाधान प्रोफेशनल

तिथि : 13.08.2021 स्थान : गाजियाबाद

कृते इंटेलिसिटी बिजिनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन कम्पनी) पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00127/2017-18/10296

HOME **ReLI**∧NCE FINANCE

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शास्त्रा कार्यालय : 6टा तल, सिनर्जी टॉवर,ए–13/1, ब्लॉक–ए, सेक्टर–62, नोएडा 201301 पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, द सबी, प्लॉट सं-29, सबी मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापती बापट मार्ग दादर वेस्ट, मुम्बई-400028

मांग सूचना

जैसा कि यहां निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं /गारंटर / बंधकर्ताओं ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी हम वर्णित करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजुद, उधारकर्ताओं /गारंटर /बंधककर्ताओं ने नियत दिनांकों के अनुसार ब्याज और मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चुक की है। इस खाते को नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों के अनुसार आरएचएफ की पुस्तकों में उल्लेखित संबंधित दिनांकों पर गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण किया गया है। परिणामस्वरूप रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियाँ के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सरफैसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के तहत नीचे उल्लेखित संबंधित दिनांकों पर मांग सूचना जारी कर निम्नलिखित उधारकर्ताओं / गारंटर / बंधकर्ताओं को सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भूगतान की दिनांक तक सूचनाओं में उल्लेखित राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ सचना में, उल्लेखित राशि का भगतान करने का आहवान किया गया है।

		सह-उधारकर्ता		मांग			जनिक सूचनाके माध्यम से सूचित किया जाता है।
京.	September 2000	और गारंटर का नाम	एनपीए दिनांक	सूचना की दिनांक		ऋण राशि	प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का संपत्ति पता
1	मेगा एक्सिलेंस प्रायवेट लिमिटेड (इसके डायरेक्टर द्वारा) जी-47, बेसमेन्ट, एल जी एफ., काल्काजी, नई दिल्ली-110019	नवदीप विजेश्वर, वन्दना नवदीप विजेश्वर एवं प्रेम चन्द विजेश्वर	11 जून 2021	2 अगस्त 2021	ल. 32,40,491/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरुद्ध ऋण खाता सं. RHHTDEL000054369) एवं ल. 36,96,317/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरुद्ध ऋण खाता सं. RHHLDEL000002900)	र 35,00,000/- एवं र 40,94,196/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- रहवासी संपत्ति प्लाट नं. 293, क्षेत्रफल: 112.5 वर्ग मीटर, ब्लॉक ए, सेक्टर 47, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर स्थित, उत्तर प्रदेश 201301 चर्तुसीमा: उत्तर: 12.0 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लाट नं. 318, सेक्टर 47, पूर्व: प्लाट नं. 294, सेक्टर 47, पश्चिम: प्लाट नं. 292, सेक्टर 47
2	अंजली देवी मकान नं. 613, सेक्टर 37, फरिदाबाद, हुडा मार्केट के पास, हरियाणा - 121003	योगेश कुमार	6 ਸई 2021	4 अगस्त 2021	क. 18,86,384/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHHLDEL000001913) एवं क. 54,28,189/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHHTDEL000030834)	र 25,75,997/- एवं र 75,00,000/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- रहवासी संपत्ति नं. 612, सेक्टर 37, अर्बन एस्टेट, फरिदाबाद, क्षेत्रफल: 284.44 वर्गयार्ड, फरिदाबाद, हरियाणा 122003
3	अमित कुमार डी-203, प्लाट नं, 27, न्यू ज्योति अपार्टमेन्ट, सेक्टर 4, द्वारका, दिल्ली- 110075	अरविन्द कुमार फिनिक्स एक्सप्रेस प्रायवेट लिमिटेड	11 ਸई 2021	6 अगस्त 2021	रू. 4,27,68,932/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHCPKRT000058329)	₹ 4,11,00,000/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण माग- दुकान/ऑफिस नं. एल जी-01, ग्रेटर नोएडा शॉपिंग प्लाजा नामक व्यावसायिक बिल्डिंग के नीचले तल स्थित, प्लाट नं. एस-7/2, इंडस्ट्रियल एरिया, सुरजपुर, साईट-4, ग्राम कसना, परगना/तह. सदर, जिला गीतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश 201306, क्षेत्रफल 721.74 वर्ग मीटर सुपर एरिया, चतुंसीमा: उत्तर: बाहरी दीवार, दक्षिण: दुकान नं. एलजी 02, पूर्व: बाहरी दीवार, पश्चिम: बाहरी दीवार
4	महेन्द्र कुमार सिंह मकान नं. 22, खिचिपुर, पेप्सी वाली गली, कल्याणवास पूर्वी दिल्ली - 110091	ममता सिंह	6 मई 2021	4 अगस्त 2021	रू. 8,47,943.71 दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHAHDEL000074315)	₹ 7.54.745/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- रहवासी प्लाट नं. 126, खसरा नं. 218, नंद वाटिका स्थित, ग्राम गिरधरपुर सुनारसी परगना, तह. दादरी, जिला गीतम बुद्ध नगर, क्षेत्रफल 70 वर्गयार्ड या 58.52वर्गमीटर, नोएख, उत्तर प्रदेश 20 13 10 वर्तुसीमा: पूर्व: प्लाट दीगर स्वामी, पश्चिम: 20 फीट बौड़ी सड़क, उत्तर: प्लाट नं. 125, दक्षिण: अन्य व्यक्ति की संपत्ति
5	विजेन्द्र सिंह बी- 150, दास घरा घरी, श्री निवासपुरी, कैलाश फेस-1 के पूर्व में, दिल्ली 110065	कमलेश विजेन्दर सिंह एवं सिद्धांत बैसोया	23 मार्च 2021	6 अगस्त 2021	रू. 51,74,715/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरुद्ध ऋण खाता सं . RHLPDEL000051525)	₹ 48,00,000/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- फ्री होल्ड संपत्ति, नगर पालिका क्रं. बी- 150, क्षेत्रफल 110 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 80 (भीन) का भाग, ग्राम गरही झारिया मारिया स्थित, कैलाश के पूर्व में, नई दिल्ली 110065
6.	मुकेश बावेजा 214 ए, चाँद नगर, विष्णु गार्डन, दिल्ली 110018	रॉबिन बावेजा, मुकेश बावेजा लॉजिस्टीक्स , राजरानी कृष्ण लाल एयं मिनाक्षी बावेजा	23 मार्च 2021	6 अगस्त 2021	रू. 29,69,839/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHLPDEL000060594)	₹ 25,25,000/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- प्लाट नं. 214 पर निर्मित, पहली एवं दूसरी मंजिल छत के साथ, प्रत्येक फ्लोर का क्षेत्रफल 50 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 32/25 (Rect. नं. 32 एवं किला नं. 25) पानी, बिजली एवं सेवरेज के साथ विविध रूप से प्रवेश गेट, सीढी, मार्ग एवं अन्य सभी सामान्य सुविधाओं के सामान्य अधिकार के साथ, ग्राम खयाला के क्षेत्र में स्थित, बाँद नगर कॉलोनी, कन्हैया पार्क, नई दिल्ली - 110018, चर्तुसीमा: पूर्व: प्लाट नं. 214 का माग, पश्चिम: प्लाट नं. 213, उत्तर: 20 फीट सड़क, दक्षिण: प्लाट का भाग
7.	अजय विक्रम सिंह प्लाट नं. 877, तल मंजिल, संत नगर, आईसीआईसीआई बैंक के पास, बुरारी, दिल्ली 110084	अल्का सिंह	11 জুল 2021	6 अगस्त 2021	रू. 51,95,816/- दिनांक 2 अगस्त 2021 तक (विरूद्ध ऋण खाता सं. RHHLDEL000074753)	₹ 48,00,000/-	संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग- पूरी तरह से उपरी भूतल का पूरा भाग, पीवीटी. नं. ए-1, छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 120 वर्ग यार्ड या 100.33 वर्गमीटर कोंमन प्रवेश, मार्ग, सिढ़ीयां, लिफ्ट एवं एक कार के कोंमन पार्किंग के अधिकार के साथ (निचले तल मंजिल पर स्थित कोंमन पार्किंग क्षेत्र) पूर्वकथित निर्मित संपत्ति, पीवीटी. नं. 10, खसरा नं. 122/5/1 मीन. में शामिल, ग्राम बुरारी का विस्तारीत लाल डोरा (आबादी देह) के अंदर स्थित है, जिसे संत नगर के नाम से ज्ञात, बुरारी, दिल्ली 110084

उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार, उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटर (जहां कहीं लागू हो) को भविष्य के ब्याज और लागू शुल्क के साथ ऊपर उल्लेखित बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर करने के लिए सूचित किया जाता है, भुगतान करने में असफल होने पर इस सूचना की दिनोंक की अवधीं की समाप्ति के 60 दिन के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुननिर्माण और प्रतिमृति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 13(4) के तहत उधारकर्ताओं की प्रत्यामृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध और बंधककर्ताओं की प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित और उसके तहत लागू नियम के अंतर्गत आगे कदम उठाए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी उधारकर्ता प्रत्याभृत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में उल्लेखित अपनी प्रत्यामत परिसंपत्तियों में से किसी को बिक्री. पड़े या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

दिनांक: 14,08,2021 स्थान : दिल्ली/नोएडा/फरिदाबाद

हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे संताकृज (ईस्ट), मुम्बई 400055, YES BANK ई मेल communications@yesbank.in, वेबसाईट : www.yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

(नियम 8(1)) कब्जे की सूचना REF No. YBL/ENF/DEL/RN/2021-22/192-A

जबकि, अधोहरताक्षरकर्ता येस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों क प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का संख्याक 54) (अधिनियम) की धाराँ 13(12) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) का संपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी (1) मैसर्स विनीत ट्रैंडर्स ('ऋणी') जरिये इसके प्रोपराईटर, (2) श्रीमती कमलेश गोंयल ('प्रोपराईटर, बंधककर्ता और गारंटर'), (3) श्री सुभाष चंद गोयल ('गारंटर'), (4) श्री विनीत गोयल ('गारंटर') को सुबना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर रूपये 3,21,41,839 / - (रूपये तीन करोड इक्कीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ उनचालीस मात्र) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 तक तथा दिनांक 19 अप्रैल, 2021 से प्रभावी आगे के व्याज तथा प्रन्य खर्चों के साथ की राशि को लौटाने के लिये कहा गया था।

ऋणीं तथा जमानतदारों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी, जमानतदारों और बंधककर्ता तथा जनसामान्य को को एतद द्वारा सचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की क्षारा 13(4) संपंतित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनप्रयोग में. एतरिमन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 10 अगस्त 2021 को ग्रहण कर लिया हैं।

ऋणी, जमानतदारों तथा बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार येस बैंक लिमिटेट हे रूपये 3,21,41,839/— (रूपये तीन करोड इक्कीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ **उनचालीस मात्र) दिनांक 18 अप्रैल, 2021** तक व आगे के व्याज एवं लागतों के अध्यधीन होगा। त्र.णियों का ध्यान प्रतिभृत आरितयों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

麻.	दस्तावेजों के अनुसार	शीर्षक दस्तावेज के	वंधककर्ता
戒.	बन्धक सम्पत्ति का विवरण	अनुसार सीमाएं	
1.	सम्पत्ति नं. 107, क्षेत्रफल 189 वर्गगज जो न्यू अनाज मंडी बल्लभगड़, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।		श्रीमती कमलेश गोचल के स्वामित्व में

दिनांकः 10.08.2021 रोहित निझावन (उपाध्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, स्थानः दिल्ली 5ए/15, तिलक नगर, सुधाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली- 110018, फोन: +91 9350741339, 011-40154020/21/41

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बार्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कार्यकारी अभियंता का कार्यालय. सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035

र्ड-निविदा आमंत्रण सचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से **कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक** दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:

एनआईटी संख्या: 07/EEC-10/DUSIB/ 2021-22

निविदा संख्या: 2021 DUSIB 205514 1

कार्य का नामः समुदाय भवन / बस्ती विकास केन्द्र का निर्माण उप श्रीर्षः संपत्ति संख्या 1105-09 गली समीसान, फराशखाना - बल्लीमारान (विधान सभा क्षेत्रः 22) के

समुदाय भवन का उन्नतिकरण, सुधारीकरण व चब्नतरा/छज्जा पर अस्थाई औसारे का निर्माण

अनमानित लागतः रु. 87.08.282.00 धरोहर राशि: रु. 1,74,200.00

निविदा मुल्यः रु. 1000.00 कार्य अवधि: 180 दिन

निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 31.08.2021 के 15.00 बजे तक निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईटः https://eprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किया जा

* सभी इच्छुक निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार वे लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया

अधिशासी अभियंता सी-10, डी.यू.एस.आई.बी. DIP/Shabdarth/0235/21-22

SUDEV INDUSTRIES LIMITED Registered Office: B1/26, Sector-18, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP- 201301 CIN No.:L25201UP1992PLC018150, Tel. No.: 8447772518 Website: www.Sudev.co.in, E-mail: info@sudev.co.in Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended As on June 30, 2021

	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2021	Quarter Ended 31.03.2021	Year Ended 30.06.2020	Year Ended 31.03.2021
	STREAM COOK WITH COMMISSION STREET	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)			-	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	-		345	1.4
3	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	(0.430)	(1.150)	(0.410)	(2.287)
į	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*			-	
į	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	(0.430)	(1.150)	(0.410)	(2.287)
3	Other Comprehensive Income				
1	Total Comprehensive Income for the period	(0.430)	(1.150)	(0.410)	(2.287)
1	Equity Share Capital	350.074	350.074	350.074	350.074
)	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-		13	(366.937)
H	Earning Per Share (of ₹10/- each)				
	Basic :		4	(4)	194
	Diluted:	(0.010)	(0.027)	(0.010)	(0.050)

'30" June, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for Quarter ended on 30" June, 2021 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.sudev.co.in).

For Sudev Industries Limited Rajiv Agarwal

(Director)

Place: Uttar Pradesh Date : August 13, 2021

> CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

> आदित्या बिरला हाउसिंग फाइनेंस लि. पंजीकत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात 362 266 शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्टर-3, नोएडा यूपी सम्पर्क सं. - श्री मंदीप लुधरा, मोबा. 09999009978, श्री तुंग ध्वज कौशिक मोबा:--09873682400, श्री पंकज राणा - 7065748080 अपेंडिक्स IV-A

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

संपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान के तहत ई-नीलामी बिक्री सुचना। एतदद्वारा जनसाधारण को सामान्य रूप से एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति / बंधक / प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे आदित्या बिढ़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा लिया गया है, को आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

निम्नलिखित खाते में दिनांक 30 सितम्बर-2020 तक बकाया रू 11,97,857.00/-(रूपये ग्यारह लाख सत्तानवे हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) एवं पूर्ण भूगतान करने की तिथि तक अग्रिम ब्याज तथा अन्य खर्चे की ऋणकर्ता (ऑ) एवं गारंटर (ऑ) जिनके नाम श्री विनय चंद्रा झा, श्रीमती निमा झा, से बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा "जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 02 सितम्बर-2021 को बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

आरक्षित मूल्य रूपये 972000/- (रूपये नौ लाख बहत्तर हजार मात्र) एवं अग्रिम धनराशि (ईएमडी) रू 97200 / - (रूपये सत्तावन हजार दो सौ मात्र)। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 01 सितम्बर 2021 है

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

पलैट नं. 4 सम्पत्ति सं. सी-9/6, लेपट हेंड बैक साइट, अपर ग्राउंड पलोर बिना छत के अधिकार साथ, डीएलएफ अंकुर विहार, सदुल्लाबाद परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद भारत नगर एस.ओ. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर बनी हुई सम्पत्ति के सभी भाग एवं पार्सल । उत्तर में सीमांकन : प्लाट नं, सी-9 / 5, पूर्व : अन्य भूमि, दक्षिण : प्लाट नं सी-9 / 7, पश्चिम : 9 मीटर रोड

अधोहस्ताक्षरी के अनुसार अचल संपत्ति पर कोई भी भार ज्ञात नहीं है। बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड की वेबसाइट का अवलोकन करें: https://homefinance.adityabirlacapital.com properties-for-auction-under-sarfaesi-act or https://sarfaesi.auctiontiger.net

प्राधिकृत अधिकारी, तिथि : 14.08.2021 आदित्य बिढला डाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड स्थान गालियाबाद, उत्तर प्रदेश

हिंदुस्तान बिजनेस कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नंबर 702, 7वीं मंजिल, कंचनजंगा, 18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली — 110001 फोनः 011—2331 0001 (5 लाइन) ईंगेलः hcslndl@yahoo.co.in

30 जून, 2021 को समाप्त अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का ब्यौरा

	30 %, 2021 47 WHA SING	ariala lasira	(प्रति शेर	गर डेटा को छोड़व	oर रुपये लाख में)
V 2000	NO.		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
あ . स.	विवरण	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
29.		(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	0.28	0.31	0.46	1.40
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और असाधरण आइटम से पूर्व)	(0.47)	(2.39)	(0.29)	(4.19)
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व, (असाधरण आइटम के पश्चात)	(0.47)	(2.39)	(0.29)	(4.19)
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर एवं एक्सेप्शनल आइटम के पशचात्	(0.59)	(2.90)	(0.40)	(4.88)
5	अविच के लिये कुल व्यापक आय (अविच के लिये लाभ/ (हानि) शामिल (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	242.03	737.96	(0.41)	1,165.66
6	इक्विटी शेयर कैपीटल	24.00	24.00	24.00	24.00
7	अन्य इक्विटी				3,691.60
8	अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10/-रू का (क) बेसिक (रू) (ख) डायल्युटिड (रू)	(0.25) (0.25)	(1.21) (1.21)	(0.17) (0.17)	(2.03) (2.03)

।. उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किए गए 30 जुन 2021 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत वित्तीय परिणामों का एक उद्धरण है। 2. उपरोक्त अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13

अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कलकत्ता

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 13 अगस्त, 2021

स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पास दायर की जा रही है।

हस्ता./-नीरज जैन निर्दे शक DIN 02726637

सूरज इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

CIN: L26943HP1992PLC016791

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 2, फेज III, संसारपुर टेरेस, जिला– कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–173212

कॉर्पोरेट कार्यालयः एफ-32/3, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज - ॥, नई दिल्ली-110020 ईमेल आईडी: secretarial@surajindustries.org वेबसाइट-www.surajindustries.org, टेलीफोन नंबर- 01970-256414 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही एवं लेखा वर्ष के अंकेक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का सार

				(क. लाखाँ में)
화. सं.	विवरण	30.06.2021 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)	31.03.2021 समाप्त वर्ष (अंकेक्षित)	30.06.2020 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित)
1,	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	305.63	704.33	13.48
2.	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाम/(हानि) (कर. विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3.25	37.12	(5.49)
3.	कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से बाद)	3.25	37.12	(5.49)
4.	कर के पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	3.25	37.12	(5.49)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	3.25	37.12	(5.49)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10/-रू प्रति)	865.00	865.00	728.6
7.	रिजर्व (पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित रिजर्व को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00
8.	आय प्रति शेयर (रू. 10 / — प्रति का) असाधारण मदों से पहले और बाद में — मूल और तरल (*गैर वार्षिक)	0.04 0.04	0.51* 0.51*	(0.08)* (0.08)*

टिप्पणी:

ं उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा 12.08.2021 को आयोजित बैठक में समीक्षा की गई और बाद में निदेशक मंडल द्वारा 12.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया।

2. ये परिणाम भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के तहत जारी किया गया है।

चालु तिमाही के दौरान कंपनी ने राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएम) के परिसर में पुरानी चुंगी; रामगंज, तारागढ़ रोड, तह.-अजमेर, जिला-अजमेर, राजस्थान-305001 के परिसर में स्थित बॉटलिंग इकाई का अधिग्रहण किया है। 17, जून 2021 को मैसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड से आरएसजीएसएम के साथ निष्पादित समझौते के संदर्भ में आरएसजीएसएम के लिए मादक पेय पदार्थों की बॉटलिंग और पैकेंजिंग के लिए। इसलिए, इस तिमाही से कंपनी के दो व्यावसायिक खंड हैं- ए) शराब संचालन (बी) ट्रेडिंग संचालन। तदनुसार खंड रिपोर्टिंग की जा रही है।

4. पिछले वर्षों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के तुलनीय बनाने के लिए पुनः समृहित / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड की आज्ञानुसार वास्ते सूरज इण्डस्ट्रीज लि0 हस्ता/-

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 13 अगस्त, 2021

सूरज प्रकाश गुप्ता, प्रबंध निदेशक

FINNA TRADE LIMITED

Registered Office: No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530, CIN:L51100DL2009PLC186397

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2021 (Rs. in Lakh)

		STANDALONE						
S.	Particulars		Year Ended					
No.	0930 (648865)	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021			
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	2429.78	5073.72	3193.07	24075.50			
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.52	(140.59)	(104.37)	(307.77)			
3	Net profit /(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and /or Extraordinary items)	11.52	(140.59)	(104.37)	(307.77)			
4	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (After exceptional and/or Extra ordinary Items)	49.73	(156.34)	(77.37)	(281.52)			
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	48.69	(159.79)	(77.75)	(285.97)			
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48			
7	Other Equity	-	-	5 <u>L</u> 5	1,820.07			
8	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)		Y		100			
	(a)Basic	(0.58)	(1.83)	(0.90)	(3.29)			
7-10	(b)Diluted	(0.58)	(1.83)	(0.90)	(3.29)			

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinnatrade.in

2 The above results have been reviewd by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on on 13th August, 2021.

Place: New Delhi Date: 13.08.2021

FOR TINNA TRADE LIMITED Gaurav Sekhri Chairman & Managing Director

Jaykay Enterprises Limited

CIN: L99999UP1961PLC001187 Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur 208 001 (India)

Ph.No. +91 512 2371478-81 * Fax: +91 512 2399854 website www.jaykayenterprises.com E-mail: prabhat.mishra@jaykayenterprises.com Extract of Statement of Standalone and Concolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th IUNE 2021

SI. No.	Particulars		STANDALONE		CONSOLIDATED			
		3 Months Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	3 Months Ended 30.06.2020 (Unaudited)	3 Months Ended 30.06.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	3 Months Ended 30.06.2020 (Unaudited)	
1	Total Income From Operations	7.50	30.80	7.50	7.50	30.80	7.50	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items.)	1.00	1,625.81	2.61	1.00	1,625.81	2.61	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items.)	1.00	1,625.81	2,61	1.00	1,625.81	2.61	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items.)	1.00	1,625.81	2.61	1.00	1,625.81	2.61	
5	Share of Profit/(Loss) of Associates	19	(3 -	38	641.04	976.30	51.46	
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit after Tax and Other Comprehensive Income)	655,49	2,626,95	293.91	1,296.40	3,603.78	344.92	
7	Equity Share capital (face Value ₹1/- Per Share)	435.05	435.05	371.35	435.05	435.05	371.35	
8	Earning per share (of ₹1/- each) : Not Annualised	45444	05500		0.000,000	3633064		
0.750	Basic after Other Comprehensive Income	1.51	6.94	0.79	2.98	9.52	0.93	
	Diluted after Other Comprehensive Income	1.25	5.60	0.79	2.47	7.69	0.93	

Notes: - 1. The above un-audited Standalone and Consolidated Financial Results, have been reviewed by the Audit Committee have been approved by

the Board of Directors at its meeting held on 13th August, 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for Quarter Ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of Quarter Ended Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.jaykayenterprises.com.

For and on behalf of the Board of Directors

KRISHNA BEHARI AGARWAL Director (DIN 00339934)

पंजी. कार्यालय फ्लैट नंबर 702, 7वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन नंबर 011-23310001(5 लाइन्स), ई-मेलः hcsIndl@yahoo.co.in

अन-अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय का उद्धरण 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम (प्रति शेयर ढेटा को छोडकर रुपये लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाडी			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		जून 30, 2021 (अनअंकेक्षित)	मार्च ३१, २०२१ (अंकेक्षित)	जून 30, 2020 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2021 (अंकेक्षित)	जून ३०, २०२१ (अनअंकेशित)	मार्च 31, 2021 (अंकेक्षित)	जून 30, 2020 (अनअंकेंद्रीत)	मार्च 31, 2021 (अंकेक्षित)
1,	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	7.68	29.77	4.98	52.88	7.68	29.77	4.98	52.88
2.	अवधि के लिए युद्ध लाम/(हानि) (कर और असाधरण आइटम से पूर्व)	4.65	3.67	2.76	16.53	4.65	3.72	2.76	16.60
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व (असावरण आइटम के पश्चात)	4.65	3.67	2.76	16.53	4.65	3.72	2.76	16.60
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) कर एवं एक्सेप्शनल आइटम के पशचात्	3.19	2.45	1.77	11.20	3.19	2.50	1.77	11.27
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये लाभ / (हानि) शामिल (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	323.07	1,029.36	1.72	1,626.41	323.07	1,029.41	1.72	1,626.48
6.	इक्विटी शेयर कैपीटल	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17,11	17.11	17.11
7.	अन्य इक्विटी	0.00014-000	0 85500	30745301	3,236.61	230,7955	COMMENT		3,237.12
8.	अर्जन प्रति शेयर प्रत्येक 10 / -रू का (क) बेसिक (रू) (ख) खायल्यूटिड (रू)	1.85 1.85	1.42 1.42	1.03 1.03	[1] (C.C.) (C.C.)	0.00000000	1.45 1.45		

स्थानः नई दिल्ली

उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सवेंज के साथ दायर किए गए 30 जून 2021 को समाप्त तिमाड़ी के अनअंकेक्षित वितीय परिणामों के विस्तृत वितीय परिणामों का एक उद्धरण है।

उपरोक्त गैर-लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समैकित वित्तीय परिणाम कंपनी के साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे, लेखापरीक्षा द्वारा समीका की गई समिति और निदेशक मंडल द्वारा 13 अगस्त, 2021 को हुई बैठक में अनुमोदित। सांविधिक लेखा परीक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट कलकता स्टॉक एक्सचेंज में दायर की जा रही है।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से (मुरारी लाल बिरमीवाला)

निर्दे शक

DIN: 00642510

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

नई दिल्ली

Place : Kanpur

Date : 13.08.2021